



raghv sharma



Model: Horoscope-Matching

Order No: 121267501

पुल्लिंग :	लिंग	: स्त्रीलिंग
17-18/07/2007 :	जन्म तिथि	: 13/02/2026
मंगल-बुधवार :	दिन	: शुक्रवार
घंटे 03:42:00 :	जन्म समय	: 19:57:00 घंटे
घटी 55:26:59 :	जन्म समय(घटी)	: 32:08:03 घटी
India :	देश	: India
Chandigarh :	स्थान	: Delhi
30:43:00 उत्तर :	अक्षांश	: 28:39:00 उत्तर
76:47:00 पूर्व :	रेखांश	: 77:13:00 पूर्व
82:30:00 पूर्व :	मध्य रेखांश	: 82:30:00 पूर्व
घंटे -00:22:52 :	स्थानिक संस्कार	: -00:21:08 घंटे
घंटे 00:00:00 :	ग्रीष्म संस्कार	: 00:00:00 घंटे
05:31:12 :	सूर्योदय	: 07:01:30
19:25:56 :	सूर्यास्त	: 18:09:32
23:57:52 :	चित्रपक्षीय अयनांश	: 24:13:26
मिथुन :	लग्न	: सिंह
बुध :	लग्न लग्नाधिपति	: सूर्य
सिंह :	राशि	: धनु
सूर्य :	राशि-स्वामी	: गुरु
मघा :	नक्षत्र	: पूर्वाषाढा
केतु :	नक्षत्र स्वामी	: शुक्र
4 :	चरण	: 1
व्यतिपात :	योग	: वज्र
वणिज :	करण	: कौलव
मे-मेहर :	जन्म नामाक्षर	: भू-भूमिका
कर्क :	सूर्य राशि(पाश्चात्य)	: कुम्भ
क्षत्रिय :	वर्ण	: क्षत्रिय
वनचर :	वश्य	: मानव
मूषक :	योनि	: वानर
राक्षस :	गण	: मनुष्य
अन्त्य :	नाड़ी	: मध्य
मूषक :	वर्ग	: मूषक

## ग्रह अंश एवं विंशोत्तरी


विंशोत्तरी	अंश	राशि	ग्रह	राशि	अंश	विंशोत्तरी
केतु 0वर्ष 4मा 11दि	06:05:46	मिथु	लग्न	सिंह	24:51:53	शुक्र 17वर्ष 1मा 25दि
शुक्र	00:59:33	कर्क	सूर्य	कुंभ	00:39:57	शुक्र
28/11/2007	12:38:17	सिंह	चंद्र	धनु	15:13:53	13/02/2026
28/11/2027	22:22:18	मेष	मंगल	मक	22:23:36	10/04/2043
शुक्र 29/03/2011	11:11:59	मिथु	बुध	कुंभ	16:56:13	शुक्र 10/08/2026
सूर्य 29/03/2012	16:34:56	वृश्चि व	गुरु व	मिथु	21:54:56	सूर्य 10/08/2027
चन्द्र 27/11/2013	07:15:11	सिंह	शुक्र	कुंभ	09:44:59	चन्द्र 10/04/2029
मंगल 28/01/2015	00:13:37	सिंह	शनि	मीन	05:43:53	मंगल 10/06/2030
राहु 27/01/2018	13:44:06	कुंभ व	राहु व	कुंभ	14:48:49	राहु 10/06/2033
गुरु 27/09/2020	13:44:06	सिंह व	केतु व	सिंह	14:48:49	गुरु 09/02/2036
शनि 28/11/2023	24:29:51	कुंभ व	हर्ष	वृष	03:16:33	शनि 10/04/2039
बुध 28/09/2026	27:22:01	मक व	नेप	मीन	06:17:36	बुध 08/02/2042
केतु 28/11/2027	02:58:08	धनु व	प्लूटो	मक	09:51:56	केतु 10/04/2043

व - वकी स - स्थिर

अ - अस्त पू - पूर्ण अस्त

राहु : स्पष्ट


23:57:52 चित्रपक्षीय अयनांश 24:13:26



## अष्टकूट गुण सारिणी

कूट	वर	कन्या	अंक	प्राप्त	दोष	क्षेत्र
वर्ण	क्षत्रिय	क्षत्रिय	1	1.00	--	जातीय कर्म
वश्य	वनचर	चतुष्पाद	2	0.00	--	स्वभाव
तारा	अतिमित्र	सम्पत	3	3.00	--	भाग्य
योनि	मूषक	वानर	4	2.00	--	यौन विचार
मैत्री	सूर्य	गुरु	5	5.00	--	आपसी सम्बन्ध
गण	राक्षस	मनुष्य	6	0.00	हाँ	सामाजिकता
भकूट	सिंह	धनु	7	0.00	हाँ	जीवन शैली
नाडी	अन्त्य	मध्य	8	8.00	--	स्वास्थ्य/संतान
<b>कुल :</b>			<b>36</b>	<b>19.00</b>		

कुल : 19 / 36



## अष्टकूट मिलान

गणदोष प्रभावहीन है क्योंकि दोनों के राशि स्वामियों में मित्रता है।

भकूट दोष प्रभावहीन है क्योंकि दोनों के राशि स्वामियों में मित्रता है।

raghv sharma का वर्ग मूषक है तथा Ms. का वर्ग मूषक है। इन दोनों वर्गों में परस्पर सम है।

अष्टकूट मिलान के अनुसार raghv sharma और Ms. का मिलान शुभ है।

### मंगलीक दोष मिलान

raghv sharma मंगलीक नहीं है क्योंकि मंगल लग्न कुण्डली में एकादश भाव में स्थित है।

Ms. मंगलीक नहीं है क्योंकि मंगल लग्न कुण्डली में षष्ठ भाव में स्थित है।

raghv sharma तथा Ms. में मंगलीक मिलान ठीक है।

### निष्कर्ष

अष्टकूट एवं मंगलीक दोष न होने के कारण दोनों का मिलान उत्तम है।

## अष्टकूट फलादेश

### वर्ण

raghv sharma का वर्ण क्षत्रिय तथा Ms. का वर्ण भी क्षत्रिय है। अतः यह मिलान अति उत्तम मिलान है। जिसके कारण दोनों ही दम्पति अति ऊर्जावान, साहसी, उद्यमी होंगे साथ ही दोनों एक-दूसरे के साथ सद्भाव एवं प्रेम से जीवन बितायेंगे। इसके अतिरिक्त समय-समय पर एक-दूसरे की सहायता से सुखी एवं समृद्ध परिवार का निर्माण करने में योगदान देते रहेंगे।

### वश्य

raghv sharma का वश्य वनचर है एवं Ms. का वश्य चतुष्पद है। जिसके कारण यह मिलान अच्छा मिलान नहीं है। वनचर हमेशा चतुष्पद के लिए खतरा होता है। जब भी वनचर को मौका मिलता है वह चतुष्पद को अपना शिकार बना लेता है। वनचर raghv sharma एवं चतुष्पद Ms. का विवाह अच्छा साबित होने में संदेह है। raghv sharma निर्दयी, क्रूर, वर्चस्वशाली एवं चतुर होगा तथा अपनी पत्नी को नौकरानी की भांति समझेगा। वह Ms. को नीचा दिखाने का कोई अवसर नहीं चूकेगा। अक्सर वह अपनी पत्नी के साथ क्रूर व्यवहार कर सकता है तथा संभव है Ms. को अक्सर उसका दुर्व्यवहार सहना पड़े।

### तारा

raghv sharma की तारा अतिमित्र तथा Ms. की तारा सम्पत है। अतः दोनों की तारा अनुकूल होने के कारण यह मिलान अति उत्तम मिलान है। यह विवाह वैवाहिक जीवन एवं परिवार के लिए चहुंमुखी समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करता रहेगा। साथ ही दोनों एक-दूसरे के लिए काफी भाग्यशाली साबित होंगे। raghv sharma हमेशा Ms. के साथ मित्रवत व्यवहार करता रहेगा तथा उसे असीम प्रेम एवं प्यार देता रहेगा। इनके बच्चे भी काफी बुद्धिमान, भाग्यशाली, आज्ञाकारी एवं सफल होंगे।

### योनि

raghv sharma की योनि मूषक है तथा Ms. की योनि वानर है। अर्थात् दोनों की योनि समान नहीं हैं और इनके बीच उदासीनता का अर्थात् सम संबंध है। अतः यह मिलान औसत मिलान कहलायेगा। जिसके कारण दोनों के बीच आपसी समझबूझ का अभाव रहेगा तथा जीवन में सहयोग की भावना एवं प्रेम का अभाव भी बना रहेगा। दोनों के बीच अक्सर लड़ाई झगड़े होंगे तथा परिवार में तनाव तथा अशांति का भाव भी रह सकता है। साथ ही दोनों के बीच अविश्वास की भावना भी बनी रहेगी। दोनों एक दूसरे को संदेह की भावना से देखेंगे जिससे दोनों के बीच कटुता का भाव भी पैदा होगा। दोनों के बीच आपसी समझ की कमी भी रहेगी अतः दोनों के बीच वैचारिक मतभेद भी हो सकते हैं। संभव है कि दोनों के बीच अवैध संबंध को लेकर संदेह की भावना बन जाये जिसके कारण पारिवारिक तनाव भी हो सकता है। बात-बात में दोनों के बीच में कभी कभी तर्क-वितर्क की जगह कुतर्क भी हो सकता है। वर या कन्या में से कोई भी विश्वासघात भी कर सकता है। जिसके कारण दोनों के बीच लड़ाई झगड़ा भी हो सकता

है। इनको अपने जीवन में अत्याधिक संघर्ष के उपरांत ही सफलता प्राप्त होगी अतः कठिन परिश्रम की आवश्यकता पड़ेगी। इसके बावजूद इनको अपने जीवन में सफलता कम ही मिलेगी। अर्थात् मेहनत अधिक और परिणाम कम ही मिलने की संभावना है। जिसके कारण दोनों को समय-समय पर मानसिक पीड़ा होती रहेगी। पारिवारिक आय औसत ही रहेगी। अर्थात् धनागम के स्रोत कम ही रहेंगे। पति-पत्नी के बीच विचारों में भिन्नता होगी एवं जीवन में उतार-चढ़ाव बने रहेंगे। दोनों लापरवाह प्रवृत्ति के होंगे किंतु परिवार के प्रति कर्तव्यनिष्ठ रहेंगे। दोनों के बीच रोमांस एवं सेक्स में रुचि की कमी भी रह सकती है। कई बार वाद-विवाद में तर्क-वितर्क होते रहेंगे। जिसके कारण समय-समय पर धन हानि भी हो सकती है। आपस में प्रेम एवं सौहार्द की भी कमी रहेगी। इस प्रकार इनका वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा न रहकर निम्न सामान्य स्तर का ही होगा।

### मैत्री

अष्टकूट मिलान में ग्रह मैत्री कूट में raghv sharma एवं Ms. दोनों के राशि स्वामी परस्पर मित्र हैं। अतः यह मिलान ग्रह मैत्री के विचार से अति उत्तम मिलान है। ज्यातिष की दृष्टि से यदि raghv sharma एवं Ms. के राशिस्वामी परस्पर मित्र होने के कारण इसे अति उत्तम मिलान माना जाता है। जिसके कारण raghv sharma एवं Ms. जीवन की हर खुशी एवं सुख प्राप्त करने में सफल होंगे तथा इनमें परस्पर विश्वास, प्रेम, समझ एवं सहयोग की भावना बनी रहेगी। साथ ही हर प्रकार की सुख-सुविधाओं एवं वैभव से परिपूर्ण होंगे।

### गण

raghv sharma का गण राक्षस है तथा Ms. का गण मनुष्य है। अर्थात् Ms. का गण raghv sharma के गण से श्रेष्ठ है। अतः यह मिलान बहुत बुरा मिलान रहेगा। ज्योतिषीय दृष्टि से यह संबंध अधिक दिनों तक नहीं रहने वाला होगा। दोनों के वैचारिक मतभेद परिवार के सदस्यों के जीवन को अशांत बना सकते हैं। ऐसा विवाह त्याज्य है।


### भकूट

raghv sharma से Ms. की राशि पंचम भाव में स्थित है तथा Ms. से raghv sharma की राशि नवम भाव में स्थित है जिसके कारण यह मिलान अच्छा मिलान नहीं है। क्योंकि इसमें नवम-पंचम का वैधव्य दोष लग रहा है। दोनों के राशि स्वामियों में परस्पर मित्र होने के कारण नवम-पंचम दोष का परिहार होने के कारण विवाह को स्वीकृति प्रदान की जा सकती है किंतु भकूट मिलान में इसे 0 अंक/गुण प्रदान किया जायेगा। दोनों के बीच सदैव संघर्ष एवं लड़ाई-झगड़े होते रह सकते हैं। जिसके कारण Ms. को संतानोत्पत्ति में भी समस्या का सामना करना पड़ सकता है।

### नाड़ी

raghv sharma की नाड़ी अन्त्य है तथा Ms. की नाड़ी मध्य है। अर्थात् दोनों की नाड़ी समान नहीं है, जो कि अष्टकूट मिलान की दृष्टि से दोष मुक्त है। अर्थात् यह मिलान अति

उत्तम मिलान है। अन्त्य एवं मध्य नाड़ी दो महत्वपूर्ण जीवनी शक्तियों पित्त एवं कफ की कारक हैं। जिसके कारण दम्पति का परस्पर प्रेम, अनुकूलता, अच्छा भविष्य, सहयोग की भावना बनी रहेगी। आपकी संतान शक्तिशाली, बुद्धिमान, आज्ञाकारी एवं भाग्यशाली होंगी।



## मेलापक फलित

### स्वभाव

raghv sharma की जन्म राशि अग्नितत्व युक्त सिंह तथा Ms. की राशि भी अग्नि तत्व युक्त धनु है। नैसर्गिक रूप से दोनों के तत्वों में समानता के कारण raghv sharma और Ms. के मध्य स्वाभाविक समानता रहेगी जिससे उनका वैवाहिक जीवन उत्तम रहेगा। अतः यह मिलान अच्छा रहेगा।

raghv sharma की राशि का स्वामी सूर्य तथा Ms. की राशि का स्वामी बृहस्पति परस्पर मित्र हैं। इसके प्रभाव से raghv sharma और Ms. के मध्य परस्पर संबंधों में मधुरता रहेगी तथा एक दूसरे के प्रति त्याग समर्पण एवं सहयोग का भाव विद्यमान रहेगा। साथ ही raghv sharma और Ms. एक दूसरे के गुणों की मुक्त कंठ से प्रशंसा करेंगे तथा कमियों की उपेक्षा करेंगे जिससे इनका वैवाहिक जीवन सुखी रहेगा।

raghv sharma और Ms. की राशियां परस्पर पंचम एवं नवम भाव में पड़ती हैं। शास्त्रानुसार यह भकूट दोष माना जाता है। इस दोष के प्रभाव से यदा कदा raghv sharma और Ms. के मध्य अनावश्यक मतभेद एवं विरोध का भाव उत्पन्न होगा। साथ ही अहंकार के भाव की भी प्रधानता रहेगी जिससे आपसी संबंधों की में मधुरता में न्यूनता आएगी अतः यदि raghv sharma और Ms. अहंकार की भावना का त्याग करें तथा सामंजस्य पूर्ण स्थिति बनाएं तो इनका वैवाहिक जीवन सुखमय हो सकता है।

raghv sharma का वश्य वनचर तथा Ms. का वश्य चतुष्पद है नैसर्गिक रूप से वनचर एवं चतुष्पद में असमानता का भाव होता है अतः raghv sharma और Ms. की अभिरुचियां अलग अलग होंगी तथा शारीरिक मानसिक एवं भावनात्मक स्तर पर भी विषमता का भाव रहेगा तथा एक दूसरे को काम चेष्टाओं में भी प्रसन्न एवं सन्तुष्ट करने में असमर्थ रहेंगे।

raghv sharma एवं Ms. दोनों का वर्ण क्षत्रिय है। अतः दोनों पराकमी एवं साहसी कार्यो को सम्पन्न करने में तत्पर रहेंगे तथा कार्य क्षमता भी बराबर होगी।

### धन

raghv sharma का जन्म अतिमित्र तथा Ms. का सम्पत नामक तारा में हुआ है। इसके प्रभाव से Ms. एक धनवान तथा भाग्यशाली महिला होंगी तथा Ms. के शुभ प्रभाव से उनकी आर्थिक स्थिति में नित्य वृद्धि होती रहेगी। भकूट का प्रभाव इनकी आर्थिक स्थिति पर सम रहेगा। अतः स्वपरिश्रम से ही इच्छित धन एवं लाभ अर्जित करने में समर्थ रहेंगे। साथ ही मंगल का भी कोई विशेष दुष्प्रभाव नहीं होगा। इस प्रकार raghv sharma और Ms. आरामदायक जीवन व्यतीत करने में समर्थ होंगे।

raghv sharma और Ms. को लाटरी, सट्टे या अन्य स्रोतों से अनायास धन प्राप्ति की संभावना होगी। साथ ही विभिन्न प्रकार के भौतिक संसाधनों का वे उपभोग करने में सफलता

प्राप्त करेंगे। इसके अतिरिक्त वे जायदाद तथा आभूषण आदि को भी अर्जित करने में समर्थ होंगे।

### स्वास्थ्य

raghv sharma की नाड़ी अन्त्य तथा Ms. की नाड़ी मध्य है। अतः अलग अलग नाड़ियों में उत्पन्न होने के कारण नाड़ी दोष से ये मुक्त रहेंगे। इसके प्रभाव से इनका शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तथा अपने शुभ एवं महत्वपूर्ण सांसारिक कार्यों को परिश्रम एवं पराक्रम से सिद्ध करने में समर्थ होंगे। साथ ही मंगल भी इन दोनों के लिए शुभ ही रहेगा तथा इनके स्वास्थ्य पर इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं होगा। अतः इनका दाम्पत्य जीवन सुख एवं प्रसन्नता पूर्वक व्यतीत होगा। इस प्रकार उत्तम वैवाहिक जीवन के लिए यह मिलान श्रेष्ठ रहेगा।

### संतान

संतति प्राप्ति की दृष्टि से raghv sharma और Ms. का मिलान उत्तम रहेगा। इसके प्रभाव से उन्हें उचित समय पर संतति की प्राप्ति होगी तथा इसमें अनावश्यक विलम्ब भी नहीं होगा। साथ ही बच्चों के जन्म में भी सामान्य अंतर रहेगा जिससे उनका पालन पोषण उचित ढंग से करने में आसानी रहेगी। इसके अतिरिक्त raghv sharma और Ms. के पुत्र एवं कन्या संतति की संख्या समान होगी।

प्रसव के विषय में Ms. के मन में पहले से ही अनावश्यक भय की अनुभूति रहेगी लेकिन Ms. को इस विषय में किसी भी प्रकार की चिन्ता नहीं करनी चाहिए तथा सामान्य रूप से गर्भावस्था का समय व्यतीत करना चाहिए। प्रसव काल में Ms. को प्रसूति या अन्य किसी भी प्रकार की चिकित्सा की आवश्यकता नहीं पड़ेगी तथा सुंदर स्वस्थ एवं आकर्षक बच्चों को जन्म देने में सफल होंगी। साथ ही स्वयं भी स्वस्थ एवं प्रसन्नता की अनुभूति करेंगी।

संतति पक्ष से raghv sharma और Ms. सन्तुष्ट तथा प्रसन्न रहेंगे तथा बच्चे अपने क्षेत्र में अपनी बुद्धिमता तथा योग्यता से उन्नतिमार्ग पर अग्रसर होंगे। साथ ही व्यवहार कुशलता का गुण भी उनमें विद्यमान रहेगा। माता पिता के प्रति उनका पूर्ण आदर तथा आज्ञापालन का भाव रहेगा तथा उनकी इच्छा के विरुद्ध वे कोई भी कार्य सम्पन्न नहीं करेंगे। इस प्रकार raghv sharma और Ms. का पारिवारिक जीवन सुख शांति तथा प्रसन्नता पूर्वक व्यतीत होगा।

### ससुराल-सुश्री

Ms. के अपने सास से सामान्य संबंध रहेंगे तथा परस्पर सामंजस्य से मधुरता बनी रहेगी यद्यपि इनके मध्य यदा कदा विवाद या मतभेद उत्पन्न होंगे परन्तु उनका बुद्धिमता से समाधान करने में दोनों को सफलता प्राप्त होगी। साथ ही Ms. यत्नपूर्वक सास की सुख सुविधाओं का ध्यान रखकर उनकी सेवा में तत्पर रहेंगी।

लेकिन ससुर से पूर्ण स्नेह एवं सहानुभूति अर्जित करने में Ms. को कठिनाई का सामना करना पड़ेगा तथा उनकी तरफ से समय समय पर समस्याएं उत्पन्न होगी। परन्तु ननद एवं देवरों से संबंधों में मधुरता रहेगी तथा उनका व्यवहार मित्रवत रहेगा फलतः उनसे पूर्ण

स्नेह एवं सहानुभूति प्राप्त होगी।

इस प्रकार Ms. को ससुराल में सामान्य रूप से अनुकूल वातावरण मिलेगा तथा किंचित असुविधाओं का सामना करके वह सामंजस्य स्थापित करने में सफल हो सकेंगी।

### ससुराल-श्री

raghv sharma के अपनी सास से संबंधों में मधुरता रहेगी तथा सास को वह अपनी माता के समान पूर्ण आदर एवं सम्मान प्रदान करेंगे। वह उन्हें अपने पुत्र के समान समझेंगी तथा उसी प्रकार अपनत्व तथा वात्सल्य प्रदान करेंगी। साथ ही समय समय पर वे सपत्नीक सास से मिलने के लिए ससुराल जाते रहेंगे।

लेकिन ससुर के साथ में raghv sharma के संबंध अच्छे नहीं रहेंगे। इनकी आयु में अधिक अंतर के कारण वैचारिक तथा सैद्धांतिक मतभेद समय समय पर उत्पन्न होते रहेंगे। लेकिन यदि दोनों सामंजस्य की प्रवृत्ति से कार्य लें तो मतभेदों में न्यूनता आएगी तथा मधुर संबंधों में वृद्धि होगी। साथ ही साले एवं सालियों से भी संबंधों में तनाव रहेगा तथा मानसिक स्तर पर विभिन्नता रहेगी जिससे एक दूसरे को वांछित सहयोग स्नेह एवं सहानुभूति अल्प ही प्रदान करेंगे। अतः इनको परस्पर सामंजस्य के भाव की स्थापना करनी चाहिए। इस प्रकार ससुराल पक्ष का दृष्टिकोण raghv sharma के प्रति सामान्य ही रहेगा।